



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ४१]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च ५, १९७७/फाल्गुन १४, १८९८

No. 41]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 5, 1977/PHALGUNA 14, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th March 1977

SUBJECT.—Import of Acrylic Monomer. O.G.L. No. CVII dated 31-12-1976.

No. 16-ITC(PN)/77.—Attention is invited to OGL No. CVII issued under Ministry of Commerce, Import Trade Control Order No. 24/76 dated the 31st December, 1976, in terms of which import of acrylic monomer has been included under OGL for imports by State Chemicals and Pharmaceuticals Corporation of India Limited (CPC) for meeting the requirements of actual users in terms of para 90 of Section I of the Red Book (Volume I) for the period April 1976—March 1977.

2. It is clarified that import of Methyl Methacrylate Monomer only is allowed under Open General Licence by the State Chemicals and Pharmaceuticals of India Limited (CPC) for meeting the requirements of actual users, in terms of para 90 of Section I of the Red Book (Volume I) for the period April 1976—March 1977. Actual users will not be eligible to import this item under the Open General Licence. In respect of other Acrylic Monomers, import licences will continue to be issued to the actual users under the automatic and supplementary licensing scheme during the current licensing period.

A. S. GILL.

Chief Controller of Imports & Exports

वाणिज्य मंत्रालय

मार्बजनिक् सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 मार्च, 1977

विषय.—एक्रिलिक मोनोमर का आयात : खुला सामान्य लाइसेंस सं० 107 दिनांक 31-12-1976.

संख्या 16—आई टी सी (पी एल) 77.—वाणिज्य मंत्रालय के आयात व्यापार नियंत्रण आदेश सं० 24/76 दिनांक 31 दिसम्बर, 1976 के अन्तर्गत जारी किए गए खुले सामान्य लाइसेंस सं० 107 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार अप्रैल 1976-मार्च, 1977 अवधि की रेड बुक (वा० 1) के खंड 1 के पैरा 90 के अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए एक्रिलिक मोनोमर के आयात को भारत के राज्य रसायन तथा भेषज निगम लि० (के पी सी) के द्वारा आयात के लिए खुले सामान्य लाइसेंस में शामिल किया गया है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अप्रैल 1976- मार्च, 1977 की अवधि की रेड बुक (वा० 1) के खंड 1 के पैरा 90 के अनुसार वास्तविक उपयोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत केवल भारत के राज्य रसायन तथा भेषज निगम लि० (के पी सी) को मेथाइल मेथाक्राइलेट मोनोमर के आयात की अनुमति है। वास्तविक उपयोक्ता खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत इस मद का आयात करने के लिए पात्र नहीं होंगे। अन्य एक्रिलिक मोनोमर के सम्बन्ध में, वर्तमान लाइसेंस अवधि के दौरान स्वतः और सम्पूरक लाइसेंस योजना के अन्तर्गत वास्तविक उपयोक्ताओं को आयात लाइसेंस प्रदान करना जारी रहेगा।

ए० एस० गिल,

मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977